



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/Weekly

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 16—अगस्त 22, 2003 (श्रावण 25, 1925)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 16—AUGUST 22, 2003 (SRAVANA 25, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली—110004, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए-34011/4/Q1-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री टेक चन्द, सहायक को 1 अगस्त 2003 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

दिनांक 01 अगस्त 2003

सं. ए-36011/49/01-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री वी. पोनराज को 04 अगस्त, 2003 के पूर्वाह्न से राष्ट्रपति सचिवालय में, निदेशक (तकनीकी इन्टरफेस) के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

सं. ए-39011/17/01-प्रशासन--श्री. माम राज सिंह, अवर सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय, 31 जुलाई 2003 के अपराह्न से अधिवर्षिता अवधि के बाद सेवा निवृत्त हो गये।

आर. एस. राणा, अवर सचिव (प्रशासन)

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. आरएस/1666/स्था./ (कार्मिक)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री जगदीश प्रकाश गरि, सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31 जुलाई, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गये।

प्र. रं. गुहाराय, उप सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली—110001, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. पीएफ 1583 (3)/एएन-1/जीएन-4953/2003--अधिवर्षिता की

आयु प्राप्त कर लेने पर श्री शीतल कुमार शर्मा, उप सचिव, 31 जुलाई, 2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. पीएफ 1583 (3)/एएन-1/जीएन-4954/2003--श्री शीतल कुमार शर्मा, सेवानिवृत्त उप सचिव को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति से संबंधित कार्य के लिए 12750-375-16500 रु. के वेतनमान में विशेष कार्य अधिकारी (सूचना प्रौद्योगिकी) के पद पर 1 वर्ष के लिए अर्थात् 1 अगस्त, 2003 से 31 जुलाई, 2004 तक अथवा तेरहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है।

आनन्द बी. कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2003

सं. प्रशासन-3/7(667)/69--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, योजना आयोग के श्री गोपाल दास चावला, निजी सचिव, दिनांक 31.07.2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

एस. ए. रहीम, अवर सचिव

सं. ए-19016/105/83-प्रशासन-3--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, योजना आयोग के श्री धर्म वीर सेठ, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, दिनांक 31.07.2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किए जाते हैं।

एस. ए. रहीम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. एफ. 6(1674)/96-प्रशासन-1--अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर योजना आयोग में उप सलाहकार (मॉनीटरिंग-कृषि), श्री पी. एन. निगम, दिनांक 31.07.2003 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप उन्होंने उसी तिथि से पदभार त्याग दिया है।

के. के. छाबड़ा, अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. ए-32014/1/98-प्रशा. III--राष्ट्रपति, श्री वेदान्तम गिरी, उप निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को गृह्य प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (क्षेत्र संकाय प्रभाग), सी. और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली में 01.07.2003 से तीन वर्षों की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर रु. 10000-325-15200/- के वेतनमान में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. के. कपूर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2003

फा. सं. ए-12034/1/2003-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, वर्तमान में माननीय विधि और न्याय मंत्री (श्री अरुण जेटली) की वैयक्तिक अनुभाग में सहायक निजी सचिव के पद पर कार्यरत वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के श्री एन. गोपाल कृष्णन, निजी सचिव को शहरी विकास और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अधीन भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद् में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए दिनांक 15.7.2003 अपराह्न को इस विभाग से कार्य मुक्त करते हैं।

प्रकाश चन्दा, उप सचिव

दिनांक 17 जुलाई 2003

फा. सं. ए-12034/2/2003-प्रशा.-IV (वि.का.)--राष्ट्रपति, भारतीय सौम्य निगम के उप प्रबंधक (पीआर) श्री कमलेश मिश्र को दिनांक 26.5.2003 से माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (श्री पी. सी. थॉमस) की वैयक्तिक अनुभाग में रुपये 10,000-15,200 के वेतनमान में अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं। श्री कमलेश मिश्र की नियुक्ति श्री पी. सी. थॉमस, माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री के प्रसावपर्वत और उनके कार्यकाल की सहित है।

प्रकाश चन्दा, उप सचिव

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. के.-13032/4/2003-बू.एस.-II-भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, नवंबर 2003 न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायविद् श्री मरोष होमी कापडिया को अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उत्तराधिकारी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दुर्गादास गुप्ता, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक जुलाई 2003

सं. ए-32014/3/2002-प्रशा. I--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान निजी सचिवों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.12.2003 तक की अवधि के लिये अथवा नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिये निरंतर करते हैं। प्रधान निजी सचिवों के पद पूर्ण रूपेण तदर्थ प्रकृति के हैं इसलिए उनकी इन पदों पर अनिश्चित काल तक निरंतर बने रहने हेतु अथवा केन्द्रीय सचिवालय आनुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता के लिये कोई दावा पेश करने का अधिकार नहीं प्रदान करते हैं:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम
	(सर्वश्री)
1.	वी. के. नारंग
2.	एच. सी. नारंग
3.	पी. दिवाकरन
4.	श्रीमती अनीता चक्रवर्ती
5.	वी. मित्रन

एस. के. भटनागर, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 05 अगस्त 2003

सं. I-11014/6/2002-आई पी एस-IV--केन्द्र सरकार, भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मणिपुर, त्रिपुरा, पंजाब और तमिलनाडु सरकार की सहमति से डॉ. महेन्द्र कुमार रायड़, आई पी एस (मणिपुर, त्रिपुरा: 2001) (त्रिपुरा क्षेत्र) तथा सुश्री कल्पना नायक, डी, आई पी एस (पंजाब: 1998) को परस्पर विवाह करने के आधार पर क्रमशः मणिपुर-त्रिपुरा तथा पंजाब के आई पी एस संवर्ग से तमिलनाडु संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

जे. बी. कौशिक, डैस्क ऑफिसर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. 14012/7/2002-अ.भा.से.(III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

नाम	बैच	स्थायीकरण तिथि
श्रीमती ऋचा शर्मा	1994	4.9.1996

संगीता सिंह, निदेशक

सं. 14012/2/2003-अ.भा.से.(III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र.सं.	नाम	बैच	स्थायीकरण तिथि
1.	श्रीकुनाल कुमार	1999	20.9.2001
2.	सुश्री रिचा बागला	1999	20.9.2001
3.	श्री अतुल पत्ते	1999	20.9.2001

संगीता सिंह, निदेशक

दिनांक 5 अगस्त 2003

सं. 14013/31/99-अ.भा.से.(III)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित सदस्य को प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:--

नाम	बैच	स्थायीकरण तिथि
1. श्री एम. जी. साल्वी	1989	12.1996

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए.32013/6/2003-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय-सेवा के श्री गीता राम को 22 जुलाई, 2003 के पूर्वाह्न से पाँच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो पहले हो, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. के. वेलुकुट्टी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. 13017/43/2002-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश की सरकारों की सहमति से एतद्द्वारा श्री एम.वी.एस. रामा रेड्डी, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आर.आर. : 88) की भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग से भारतीय प्रशासनिक सेवा के आन्ध्रप्रदेश संवर्ग में तीन वर्ष की अवधि की प्रतिनियुक्ति अनुमोदित करती है। यह प्रतिनियुक्ति, श्री एम.वी.एस. रामा रेड्डी द्वारा आन्ध्र प्रदेश सरकार में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने हेतु रिपोर्ट किए जाने की तारीख से आरम्भ होगी।

ते. के. शर्मा, डैस्क अधिकारी

नई दिल्ली-110067, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 13016/4/2002-प्रशि. I--सचिव, कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, श्री मोलॉय सान्याल, अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), युवा कार्य और खेल मंत्रालय को 14 जुलाई, 2003 की अपराह्न से 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, नई दिल्ली में सहायक निदेशक (कार्यालय प्रबन्ध) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मनाषा भटनागर, डैस्क अधिकारी

(प्रशिक्षण प्रभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. 13019/9/2000-अकादमी (डैस्क)--राष्ट्रपति, श्री एस. कृष्णन, भा. प्र. से. (तमिलनाडु : 89) उप निदेशक को, 01.07.2003 (पूर्वाह्न) से

उनके शेष कार्यकाल, जो 02.07.2005 तक है, के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, उनके लिए वैयक्तिक रूप में 15100-400-18300 रुपए के वेतनमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में उप निदेशक (वरिष्ठ) (निदेशक स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

जगमोहन गुप्ता, निदेशक

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2003

सं. डी-III/460/सी एफ-10/2003--भारत के राष्ट्रपति ने श्री मोहम्मद मीरासाहिब अब्दुल रहीम की मुम्बई में श्रीलंका के प्रधान कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री मोहम्मद मीरासाहिब अब्दुल रहीम के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात राज्य होंगे।

पी.पी. सिरकार, प्रोटोकॉल उपप्रमुख (एफ)

वित्त एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2003

सं. ए-19013/13/2002-प्रशा. 01 क--व्यय विभाग के दिनांक 10.7.2003 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32022/2/99-सी.ए.एस. के अनुक्रम में राष्ट्रपति, वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में श्री विजय कुमार की तदर्थ प्रोन्नति को 1.7.2003 से 31.12.2003 तक छः माह की आगे की अवधि के लिए अथवा नियमित वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव उपलब्ध होने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, जारी रखते हैं।

2. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री विजय कुमार की तदर्थ प्रोन्नति से उनको इस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने का अथवा वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी वरिष्ठता के दावे के लिए कोई हक प्राप्त नहीं होगा।

आर. के. मल्होत्रा, अवर सचिव

दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 64 (ए-38011/5/2003-प्रशा. I)--राजस्व विभाग में सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (1966) के अधिकारी, श्री प्रदीप सक्सेना ने, समझौता आयोग (आयकर/धनकर) की चैनई स्थिति अतिरिक्त पीठ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2003 (पूर्वाह) को सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति ले ली है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

सं. 65 (ए-38011/6/2003-प्रशा. I)--राजस्व विभाग में सदस्य, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के रूप में तैनात भारतीय राजस्व सेवा (1967) के अधिकारी श्री एस. के. दास गुप्ता ने, समझौता आयोग (आयकर/धनकर)

की कोलकाता स्थित अतिरिक्त पीठ में सदस्य के रूप में कार्यभार संभालने के लिए दिनांक 28 जुलाई, 2003 (पूर्वाह) को सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्ति ले ली है।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. 66 (ए-19014/3/2003-प्रशा. I)--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के संवर्ग में राजस्व विभाग के सहायक श्री रामनरेश को दिनांक 28.7.2003 (पूर्वाह) से तीन वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक राजस्व विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर अनुभाग अधिकारी (शामिल नहीं/टी पी एल) नियुक्त करते हैं।

प्रीति पन्त, अवर सचिव

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

आयकर संस्थान

सं. 9 फा. सं. ए-32012/7/2003-प्रशा. VI: इस विभाग की अधिसूचना संख्या-2(फा. सं. ए-32012/12/2000-प्रशा. VI) दिनांक 18.4.2001 जहां तक श्री जी. एस. सूर्यवंशी (93584) उप-आयकर आयुक्त, पुणे को वरिष्ठ वेतनमान प्रदान करने का संबंध है, का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, श्री जी. एस. सूर्यवंशी को 10,000-15,200 रुपए के वेतनमान के साथ 1 जून, 1998 से वरिष्ठ वेतनमान (उप-आयकर आयुक्त का ग्रेड) प्रदान करते हैं।

पी. सी. भट्ट, अवर सचिव

आयकर निदेशालय

(संगठन एवं प्रबन्धन)

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 30 जून 2003

सं. 290 36/5/2001-प्रशा./सं. प्र. से. नि. अधिवार्षिक की आयु होने पर इस निदेशालय के अपर निदेशक श्री बी. के. मिश्रा, ने आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबन्धन), से 30 जून, 2003 (अपराह) को अपर निदेशक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

के. के. झा, निदेशक

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए-12011/2/98-प्रशा. I--राष्ट्रपति वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री जे. के. आर्य को 7450-225-11500 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर 22.07.2003 के (पूर्वाह) से, 6 माह अथवा पद के नियमित तौर पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो नियुक्त करते हैं।

एस. सौन्दर राजन
अवर सचिव

सं. ए.-19011/6/2003-प्रशा. II—राष्ट्रपति, श्री अनिरुद्ध तिवारी, भा. प्र. से. (पंजाब: 90) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 16.06.2003 के (पूर्वाह) से उनके कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 21.11.2005 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव नियुक्त करते हैं।

एस. सौन्दर राजन, अवर सचिव

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए.-12034/8/2000-प्रशा. II—राष्ट्रपति, निम्नलिखित छः अधिकारियों को व्यय विभाग के कर्मचारी निरीक्षण एकक में 6500-200-10500 रुपये के वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शायी गयी तिथि से आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर सहायक उप निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	मूल कार्यालय (पदनाम सहित)	नियुक्ति की तारीख
1.	सर्वश्री राकेश शर्मा	कर्मचारी चयन आयोग में अनुसंधान सहायक	30.06.2003 (अपराह)
2.	धर्म सिंह	श्रम मंत्रालय में सहायक रोजगार अधिकारी	01.07.2003 (पूर्वाह)
3.	के. बी. दानिया	भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम सहायक ग्रेड-II	04.07.2003 (पूर्वाह)
4.	अशोक कुमार शर्मा	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक	04.07.2003 (अपराह)
5.	बी. के. नौटियाल	मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सहायक	10.07.2003 (पूर्वाह)
6.	विजय कौशिक	कृषि मंत्रालय में सहायक	15.07.2003 (पूर्वाह)

डॉ. हरमीत सिंह, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए.-22015/1/98-ई. II—राष्ट्रपति द्वारा गृह मंत्रालय के मूल संवर्ग के श्री एस. पलनीस्वामी, पी पी एस (स्वास्थाने) को दिनांक 28 जुलाई 2003 के (पूर्वाह) से 31.12.2003 तक की अवधि के लिए 10,000-15,200 रु. के वेतनमान में वाणिज्य विभाग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है।

श्री पलनीस्वामी की नियुक्ति पूर्णतः पदर्थ आधार पर की गई है और इस नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने या सी एस एस एस के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

एन. पी. द्विवेदी, उप सचिव

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए.-12022/1/2001-संवर्ग--राष्ट्रपति, श्री के. पी. नायर, प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने) को 28 जुलाई 2003 के (पूर्वाह) से वाणिज्य विभाग (पूर्ति प्रभाग) के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 10,000-325-15,200 रुपये के वेतनमान में 31.12.2003 तक अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद को भंग जाने तक, जो कोई भी पहले हो, तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है और यह नियुक्ति संबंधित अधिकारी को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।

3. श्री नायर, प्रधान निजी सचिव (तदर्थ) को पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में तैनात किया जाता है।

एस. दास, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 2003

सं. (23/2003)/2/4/2001-मा.सं.वि-1/3154--राष्ट्रपति, भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-II (अर्थात् उप महानिदेशक, विदेश व्यापार) की अधिकारी, कु. के. चन्द्रामति को 12000-375-16500/- रुपये के वेतनमान में भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-I (संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार) के पद पर पदोन्नति हो जाने पर इस पद के कार्यभार संभालने की तारीख से छः माह की अवधि के लिए इस कार्यालय आदेश संख्या 94/2003, दिनांक 01/08/2003 में उल्लिखित तैनाती के स्थान में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

अ. कु. म. चाकणकर
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

फा. सं. 2/1/2001-मा. सं. वि-1--राष्ट्रपति, भारतीय व्यापार सेवा के ग्रेड-I अधिकारी, डॉ. (श्रीमती) माया डी. केम को पदोन्नति पर विदेश व्यापार महानिदेशालय में 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में उनके पद का कार्यभार संभालने की तारीख से अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के पद पर नियुक्त करते हैं।

अ. कु. म. चाकणकर
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

नई दिल्ली, दिनांक 5 अगस्त 2003

सं. 17/2003-6/2158/99-मा. सं. वि-1/3253--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अधिकारी, श्री भूपेन्द्र सिंह को 13 दिसम्बर, 2002 की (पूर्वाह) से विदेश व्यापार महानिदेशालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति राजभाषा विभाग के 13 दिसम्बर 2002 के कार्यालय आदेश संख्या 5/14/2002-रा.भा. (सेवा) के अनुसार तथा उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी।

अ. कृ. म. चाकणकर
संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन और पेट्रो रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. ए-12011/1/2003-स्था.--राष्ट्रपति, श्री हरीश कुमार, भा.प्र.से. (एपी: 1986) को 18 जुलाई, 2003 पूर्वाह्न से 2.4.2005 तक आगे आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में निदेशक नियुक्त करते हैं।

आर. पी. वशिष्ठ, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. ए-32014/1/2001-प्रशासन--इस मंत्रालय की दिनांक 4/7 फरवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में राष्ट्रपति जी, श्रीमती गीता मिश्रा, सहायक को 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर, दिनांक 1.7.2003 से 30.9.2003 तक अथवा नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित पदोन्नति हेतु किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करती है। सरकार के पास किसी भी समय इस तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उन्हें पुनः सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार है।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

सं. ए-32014/1/2001-प्रशासन--राष्ट्रपति जी, कोयला मंत्रालय के श्री विजय सिंह, सहायक को, 6500-200-10,500/- रु. के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के पद पर, दिनांक 1.7.2003 से 30.9.2003 तक अथवा नियमित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही है और यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें नियमित पदोन्नति हेतु किसी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं करती है। सरकार के पास किसी भी समय इस तदर्थ पदोन्नति को रद्द करने तथा उन्हें पुनः सहायक के पद पर प्रत्यावर्तित करने का अधिकार है।

पार्वती कौटिया, अवर सचिव

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. 5(12)2002-स्थापना--पंजाब सरकार में मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नामांकन होने पर श्री जे. एस. गिल, भा. प्र. सेवा (पंजाब: 1968) को 30.7.2003 (पूर्वाह्न) से सचिव, इस्पात मंत्रालय के कार्यालय से कार्यमुक्त किया जाता है।

बाबू राम, अवर सचिव

सं. 5(5)2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री वी. के. दुग्गल, भा. प्र. सेवा (ए जी एम यू : 68), को 30.7.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, इस्पात मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

बाबू राम, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 जुलाई 2003

सं. ए-19011/15/2001-पी. II (.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.6.2003 के का.हा. सं. 20/27/98-सी. एस.-II (वाल्जूम-II) में सम्प्रेक्षित अनुमोदन से, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में श्री चमन लाल की वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ नियुक्ति एतद्वारा 01.07.2003 से 31.12.2003 तक अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. श्री चमन लाल का वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर 1.7.2003 के बाद तदर्थ पदोन्नति को जारी रखा जाना पूर्णतः तदर्थ है और उन्हें पद पर अनिश्चित समय तक बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में उन्हें वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए-12012/5/2003-पी. II (.)--राष्ट्रपति, श्री नवीन बी. चावला, आई. ए. एस. (ए. जी. एम. यू : 69), को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर, रु. 26000/- (निश्चित) के वेतनमान दिनांक 30 जुलाई 2003 अपराह्न से, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

जफरुल इस्लाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 2003

सं. ए-38012/5/2003 सी. एच.एस.-II--केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सामान्य इयूटी उपसंवर्ग में सुपर टाइम ग्रेड की अधिकारी, डा. (श्रीमती) रेखा अग्रवाल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिए जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 28.2.2003 (अपराह्न) को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन अपर निदेशक (दक्षिण क्षेत्र) के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

एन. के. सारवाल, अवर सचिव

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ए-12025/395/91-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. आदित्य बिहारी लाल को 22 अक्टूबर, 1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी

ग्रेड में 2200-4000 रुपए (संशोधन पूर्व) रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. आदित्य बिहारी लाल को उसी तिथि से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/100/94-सी. एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. विजय कुमार शर्मा को 21 सितम्बर, 1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000 रु. (संशोधन से पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. डा. विजय कुमार शर्मा को श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए-32012/1/03-सी. एच.एस.-1--मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर अपनी प्रोन्नति के परिणामस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों ने प्रत्येक के सामने दी गई तारीख को केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ दिया और उनके नामों के आगे दिए गए संगठनों के अधीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया:--

अधिकारी का नाम	संगठन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार छोड़ने की तारीख	मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार संभालने की तारीख
डा. सी.आर. सारंगी	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़, नई दिल्ली	5.4.02 (पूर्वाह्न)	5.4.02 (पूर्वाह्न)
डा. (श्रीमती) विजय लक्ष्मी	--तदेव--	5.4.02 (पूर्वाह्न)	5.4.02 (पूर्वाह्न)
डा. भास्कर सेन	--तदेव--	5.4.02 (पूर्वाह्न)	5.4.02 (पूर्वाह्न)
डा. कल्याणी बेहरा	राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	5.4.02 (पूर्वाह्न)	5.4.02 (पूर्वाह्न)

जगदीश कुमार, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए-12025/396/91-सी. एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. (श्रीमती) अनीता अरेन को 22 अक्टूबर,

1991 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/-रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. (श्रीमती) अनीता अरेन को उसी तारीख से केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, मेरठ के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/159/99-सी एच एस-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. संजय कुमार को 06.03.2000 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. संजय कुमार को राष्ट्रीय रक्तधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

सं. ए. 12025/60/2001-सी.एच.एस.-1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. अशोक कुमार को 26.12.2001 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500 रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. अशोक कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

जगदीश कुमार, अवर सचिव

(भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. ए. 32012/1/2002-भा.चि.प. (स्था.-1)--प्रदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों ने 22 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न में चिकित्साधिकारी (आयु.) के पदभार से कार्यमुक्त होकर 22 अगस्त, 2001 को पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/-+चिकित्साभ्यास भत्ता के वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है :

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1.	डा. एम. श्रीनाथाचार्या	के.स.स्वा. योजना, हैदराबाद
2.	डा. बी. के. अग्निहोत्री	के.स.स्वा. योजना, कानपुर
3.	डा. एस.पी. पांडे	के.स.स्वा. योजना, मुंबई
4.	डा. (श्रीमती) पी.आर. शर्मा	के.स.स्वा. योजना, मुंबई

एन. के लखनपाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. 11012/2/2003-व्यापार--राष्ट्रपति, श्री जी.एस. दत्त, भा. प्र. से. (बिहार: 73) को लघु कृषक कृषि व्यापार संघ में 23.7.2003 (पूर्वाह्न) से 18,400-22,400 रु. के वेतनमान में प्रबन्ध निदेशक (संयुक्त सचिव स्तर पर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. डी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 19011/389/289/2003-स्था. 5--सेवानिवृत्ति की आयु पूरी करने पर, राष्ट्रपति, अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण संगठन में नियमित मृदा सर्वेक्षण अधिकारी तथा कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपायुक्त (एस.सी., आई. एंड सी.) (12,000-16,500 रु.) के रूप में कार्यरत श्री के.के. नरुला को 31.07.2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त करते हैं।

के. डी. उप्रेती, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. 12022/1/2003-स्था. I--राष्ट्रपति, कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) में श्रीमती अंजलि प्रसाद, भा.प्र. सेवा (उत्तरांचल : 83) को रु. 18,400-22,400 के वेतनमान में दिनांक 14.7.2003 से पूर्वाह्न से पांच वर्षों की उनकी सामान्य केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि की शेष अवधि के लिए अर्थात् 2.12.2006 तक अथवा आगामी आदेश होने तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

सरस्वती प्रसाद, निदेशक (कार्मिक)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 4-17/2001-प्रशासन--अधिवर्षिता की आयु के होने पर, जो 60 वर्ष है, डा. आर. वी. वैद्यनाथ अय्यर, भा.प्र.से. (आ.प्र. : 66) सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 31 जुलाई, 2003 के अपराह्न से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

विनीत जोशी, उपसचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 16 अप्रैल 2003

सं. ए-12034/1/2001-स्था.--राष्ट्रपति, श्री सचिन शर्मा, पुत्र श्री अशोक शर्मा को डॉ. सत्यनारायण जटिया, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

के वैयक्तिक स्टाफ में सहायक निजी सचिव के रूप में 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में 10 अक्टूबर, 2002 के अपराह्न से पूर्णतया अस्थाई तथा इस मंत्रालय में मंत्री जी के कार्य काल के साथ सम-समाप्य आधार पर अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 5 मई 2003

सं. ए-12034/1/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के निजी स्टाफ में सहायक निजी सचिव श्री सचिन शर्मा को इस मंत्रालय में उनके कार्यभार से 2 अप्रैल, 2003 अपराह्न से मुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12034/1/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग "ग" के स्थायी आशुलिपिक श्री तरुण कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. सत्यनारायण जटिया के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के पद पर, 6500-200-10500 रु. के वेतनमान (सी एस एस एस के श्रेणी ए तथा बी (विलयित)) में 1 मई, 2003 के पूर्वाह्न से पूर्णतः अस्थायी तथा मंत्री जी के कार्यकाल के सम-समाप्य आधार पर या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 7 मई 2003

सं. ए-12034/1/2001-स्था. (पी टी)- राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के व्यक्तिगत स्टाफ में प्रथम निजी सहायक, श्री मोहन लाल को 30 अप्रैल, 2003 के अपराह्न से इस मंत्रालय में उनके कार्यभार से मुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 8 मई 2003

सं. ए-12034/1/2001-स्थापना--इस मंत्रालय के दिनांक 7.3.2003 के आदेश सं. ए 11013/1/2003-स्थापना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के निजी स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी का पद सृजित होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, श्री निर्मल आजाद, आई पी एस (बी एच : 94) को डॉ. संजय पासवान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में 7 मई, 2003 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री आजाद की नियुक्ति 30.6.2003 तक अवर सचिव के स्तर पर और तत्पश्चात् 1.7.2003 से तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 6.5.2006 तक अथवा मंत्री के ओ एस डी के रूप में उनका कार्य समाप्त होने अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उस सचिव के रूप में होगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 12 मई 2003

सं. ए-12022/10/2001-स्थापना (पी टी)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 31.07.2002-इ.ओ. (एम एम I) दिनांक 10.12.2002 के अनुसरण में और सक्षम-प्राधिकारी के अनुमोदन से इस मंत्रालय में अवर सचिव, श्री खलीफ अहमद को 14 मई, 2003 पूर्वाह्न से इन अनुदेशों के साथ कार्यमुक्त किया जाता है कि वे खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में तुरन्त अपना नया कार्यभार ग्रहण कर लें।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 20 मई 2003

सं. ए-12022/12/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2001 के परिणाम के आधार पर वर्ष 2001 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (विभागीय परीक्षा कोट) के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश तथा दिनांक 5 मई, 2003 के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 5/7/2003-सी.एस.-1 द्वारा इस मंत्रालय में उनका नामांकन होने पर इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक श्री अरविन्द शुक्ला (रैंक नं. 21) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग (ग्रुप "ख" राजपत्रित, मंत्रालयी) के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में, 6500-200-10500 रु. के वेतनमान में 14 मई (पूर्वाह्न) से नियुक्त करते हैं।

2. श्री शुक्ला अपनी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षाधीन होंगे।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2003

सं. 19011/12/2001-स्था.--सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशीली दवा दुरुपयोग एवं निवारण प्रभाग में अनुसंधान अधिकारी (कार्यक्रम), श्रीमती अचला मेहदीरता के विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति/संविदा पर चयन हो जाने के परिणामस्वरूप, उन्हें 26 मई, 2003 से शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के अंतर्गत मूल संगठन अर्थात् नगर एवं ग्रामीण योजना संगठन में कार्यभार ग्रहण करने के लिए अपने कर्तव्यों से कार्यमुक्त किया जाता है।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 5 जून 2003

सं. ए-12034/1/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को जो पूर्व सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (डॉ. संजय पासवान) के निजी स्टाफ में कार्यरत थे, 25 मई, 2003 पूर्वाह्न से प्रत्येक के सामने उल्लिखित पद के कार्यभार से मुक्त करते हैं।

--192 GI/2003

नाम	पद का नाम
श्री नागेन्द्र कुमार	सहायक निजी सचिव
श्री प्रभात रंजन	प्रथम निजी सहायक

2. श्री नागेन्द्र कुमार और श्री प्रभात रंजन की सेवाएं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिनांक 30 मई 2003 के का. ज्ञा. सं. ए-32011/10/2003-ई-1 की शर्तों के अनुसार दिनांक 25.5.2003 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी जाती है।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 9 जून 2003

सं. ए-12022/10/2001-स्थापना--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 दिसम्बर, 2002 के कार्यालय आगमन संख्या 31/7/2002-इ ओ (एमएम-1) के अनुसरण में तथा खाद्य और जन वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले तथा जन वितरण मंत्रालय से कार्यमुक्त होने पर श्रीमती सविता सरकार, सी एस एस को 14 मई 2003 के पूर्वाह्न से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. मंत्रालय में श्रीमती सरकार का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 7 वर्ष अथवा अगले आदेश तक या 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या पश्चात्, या उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पहले हो, होगा।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12034/1/2001--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आदेश संख्या ए-11013/2/2001-स्था. दिनांक 26.05.2003 द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के व्यक्तिगत स्टाफ में विशेष कार्य अधिकारी के पद के सृजन के फलस्वरूप, श्री अनिल कुमार सक्सेना, आई आई एस को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (डॉ. सत्यनारायण जटिया) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में वेतनमान रु. 14300-18300 में 3 अप्रैल, 2003 पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्री सक्सेना की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और मंत्री के कार्यकाल के समसमाप्य अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक होगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 11 जून 2003

सं. ए-12022/8/98-स्थापना--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 20/7/98-सी एस-2 दिनांक 31 जनवरी, 2003 के अनुसरण में, प्रधान निजी सचिव (स्वस्थाने) के रूप में कार्यरत गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के नियमित निजी सचिव, श्री एच ओ मदान को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में 30 मई, 2003 के पूर्वाह्न से रु. 10000-15200 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में 30.6.2003 तक की अवधि के लिए या नियमित आधार पर पदों के भरे जाने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है और इससे ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार श्री मदान को नहीं मिलेगा।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2003

सं.-19011/18/2001-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव, श्री सी. गोपाल रेड्डी, आई. ए. एस. (के. एन. : 66) 30 जून 2003 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12034/1/2003-स्था.--डॉ. संजय पासवान द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री के कार्यालय से पदभार छोड़ने के उपरान्त, राष्ट्रपति, श्री निर्मल कुमार आजाद, आई. पी. एस. (बिहार : 94) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (डॉ. संजय पासवान) के विशेष कार्य अधिकारी के पद से 25 मई 2003 के पूर्वाह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

2. श्री आजाद की सेवाएं दिनांक 25.05.2003 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निपटान पर रखी जाती हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12034/3/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री मोहम्मद अनीस अंसारी, जो आपूर्ति और निपटान निदेशालय वाणिज्य विभाग के कार्यालय में एक स्थायी आशुलिपिक श्रेणी 'घ' हैं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री नागमणि के प्रथम निजी सहायक के पद पर वेतनमान 6500-200-10500 रु. (समूह 'ख' राजपत्रित) में 26 मई 2003 के पूर्वाह्न से पूर्णतः अस्थाई तथा राज्य मंत्री के कार्यकाल की अवधि के समसाम्य आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12034/3/2003-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार, आई. पी. एस. (तमिलनाडु : 89) की नियुक्ति, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री नागमणि के निजी सचिव के रूप में 30 जून 2003 पूर्वाह्न से करते हैं।

श्री प्रमोद कुमार की नियुक्ति 30.6.2003 तक उप सचिव के स्तर पर तथा उसके बाद दिनांक 01.7.2003 से 5 वर्षों की अवधि, अर्थात् 29.6.2008 तक या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं करते या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक निदेशक के स्तर पर होगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 4 जुलाई 2003

सं. ए-12022/3/2003-स्था.--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में निदेशक के पद पर कार्यरत सुश्री जयश्री मुखर्जी, आई. एस. ए. (महाराष्ट्र : 86) को दिनांक 06.07.2003 अपराह्न से कार्यमुक्त करते हैं।

2. सुश्री मुखर्जी को दिनांक 7.7.2003 से 4.9.2003 तक और आगे 60 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त अवकाश की समाप्ति पर सुश्री मुखर्जी की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् महाराष्ट्र सरकार को वापिस सौंपी जाती हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 9 जुलाई 2003

सं. ए-12022/2/2002-स्था.--राष्ट्रपति, श्री बी.एस. बासवान, आई. ए. एस. (सी. जी. : 67) को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सचिव के रूप में दिनांक 10 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2003

सं. ए-12022/8/98-स्थापना--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 3 जुलाई 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून 2003 के का. जा. सं. 20/9/2003-सीएस-2 के अनुसरण में राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी एस एस एस संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री सी.एम. मलहोत्रा की तदर्थ नियुक्ति को रु. 10,000-15200 के वेतनमान में 31.12.2003 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. श्री मलहोत्रा की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा यह प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण अथवा पदोन्नति आदि के दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12022/8/98-स्थापना--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 11 जून 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून 2003 के का. जा. सं. 20/9/2003-सीएस-2 के अनुसरण में राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी एस एस एस संवर्ग में प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री एच.ओ. मदान की तदर्थ नियुक्ति को रु. 10,000-15200 के वेतनमान में 31.12.2003 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. श्री मदान की नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा यह प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण अथवा पदोन्नति आदि के दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

सं. ए-12022/14/2001-स्थापना--राष्ट्रपति, इस मंत्रालय की दिनांक 27.12.2003 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30 जून 2003 के का. झा. सं. 20/27/98-सीएस-2 (खंड 2) के अनुसरण में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी एस एस एस संवर्ग में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यरत श्री बलराज कुमार की तदर्थ नियुक्ति को रु. 12,000-16500 के वेतनमान में 30.9.2003 तक अथवा नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

2. श्री बलराज कुमार की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है तथा यह वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में किसी नियमित नियुक्ति, वरिष्ठता, स्थायीकरण अथवा पदोन्नति आदि के दावे का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एल. सी. मेहरा, अवर सचिव

जनजातीय कर्ष्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 24020/1/2000-स्थापना--राष्ट्रपति, जनजातीय कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव, डॉ. एम. एस. अहमद, आई.ए.एस. (बिहार : 73) को उनकी केन्द्रीय सेवा में और शिक्षा अवकाश की अवधि पूरी होने पर 30.6.2003 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त करते हैं और 1.7.2003 से उनकी सेवाएं उनके मूल संवर्ग बिहार राज्य सरकार को सौंपते हैं।

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 23 जुलाई 2003

सं. 3(6)/2001-का. 1--राष्ट्रपति जी ने इस विभाग के निम्नलिखित वैज्ञानिक 'एफ' को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में 18400-500-22400/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 01 जुलाई 2003 के पूर्वाह्न से वैज्ञानिक "जी" नियुक्त किया है :--

1. श्री बी. एस. बेदी (कर्मचारी कोड सं. 81)
2. श्री एल. ए. नामरानी (कर्मचारी कोड सं. 92)
3. श्री आर. सी. सचदेवा (कर्मचारी कोड सं. 100)
4. डा. एस. पी. उत्तम (कर्मचारी कोड सं. 109)
5. श्री एस. पी. सिंह (कर्मचारी कोड सं. 110)
6. श्री टी. के. सरकार (कर्मचारी कोड सं. 113)

3-192 GI/2003

एस. लक्ष्मीनारायणन, अवर सचिव

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 4(302)/86-कार्मिक. 1--श्री जतिन्द्र कुमार, वैज्ञानिक 'जी' (कर्मचारी कोड सं. 57), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 31.07.2003 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हैं।

राज कुमार मनचन्दा, उप निदेशक

मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. 7(2)/2001-पी.ए.-II--राष्ट्रपति जी ने निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 1.07.2003 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, दोनों में से जो भी बाद में हो, उच्चतम वेतनमान में समीक्षा पदोन्नत किया है :

क्र.सं.	नाम तथा पदनाम	तैनाती का स्थान	पदोन्नत पद तथा वेतनमान
1.	श्री सेबल चटर्जी वैज्ञानिक 'एफ'	ईआरटीएल (पु), कोलकाता	वैज्ञानिक 'जी' 18400-22400/- रुपये
2.	श्री के. चन्द्रशेखर वैज्ञानिक 'एफ'	ईटीडीसी, बंगलौर	वैज्ञानिक 'जी' 18400-22400/- रुपये

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. ए 39013/1/1995-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री डी. वी. केनेडी, कर्मचारी कोड सं. 1151 का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, तमिलनाडु राज्य एकक, चैन्नई में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 24 जनवरी, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक

सं. ए 39013/1/1996-प्रशा. 1--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री एम. मुनावर सुलतान, कर्मचारी कोड सं. 2221 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, तमिलनाडु राज्य एकक, चैन्नई में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 22 मई, 1996 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्याम सुन्दर, संयुक्त निदेशक

दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 31 मार्च 2003

सं. ए-32014/9/98-प्रशा. II--राष्ट्रपति, इस विभाग में प्रधान निजी सचिव सर्व/श्री ए. एम. हरीश, पदम सिंह त्रिपाठी और जे. आर. पुष्कराणी को दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आधुनिक सेवा सेक्टर के 12000-375-16,500/- रु. के वेतनमान वाले वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर 1 जनवरी 2001 पूर्वाह्न से 21 मार्च 2001 तक कार्य करते रहने की अनुमति प्रदान करते हैं।

सतीश चधवा, अवर सचिव (प्रशा. II)

सं. ए-32014/8/2002-प्रशा. II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के प्रधान निजी सचिव, श्री अमर सिंह को दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 4 मार्च 2003 के पूर्वाह्न से 30 जून 2003 तक अथवा नियमित उम्मीदवार द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने तक, इनमें जो पहले पड़े, तदर्थ आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के बतौर नियुक्त करते हैं।

2. यह पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर की जा रही है और इसके द्वारा अधिकारी को वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में नियमित किए जाने, कार्य करते रहने अथवा वरिष्ठता प्रदान करने का कोई अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा. II)

दिनांक 09 मई 2003

सं. ए-32014/15/2001-प्रशा. II--राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों को, उनकी वर्ष 2000 व 2001 की दूरसंचार विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग की ग्रेड 'क' व 'ख' (विलयित) की चयन सूची (वरिष्ठता कोट) में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें इसी विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग में ग्रेड 'क' व 'ख' (विलयित) के बतौर 6500-10500/- रु. के वेतनमान में उनके नाम के आगे दी गई तारीखों से तथा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. श्री डी. एस. रावत | 05.05.2003 |
| 2. श्री डी. डी. खोबा (अ.जा.) | 30.04.2003 |

2. ये अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षण पर रहेंगे।

3. दोनों अधिकारी, अर्थात् सर्व/श्री डी.एस. रावत तथा डी.डी. खोबा को बीएसएनएल में तैनात किया जाता है।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा.-II)

दिनांक 04 जून 2003

सं. ए-32014/2/2003-प्रशा. II--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के ग्रेड 'सी' आशुलिपिक श्री एम. सामीनाथन को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 1.4.2003 से 30.6.2003 की 3 माह की अवधि के लिए इस विभाग के संवर्ग में निजी सचिव (क और ख आमेिलित) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य जारी रखने की अनुमति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त स्थानापन्न पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह तदर्थ स्थानापन्न श्री सामीनाथन को सीएसएसएस के आशुलिपिक "क और ख" (आमेिलित) के ग्रेड में विलयन या इस ग्रेड में वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता।

सतीश वधवा, अवर सचिव (प्रशा.-II)

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 02 जुलाई 2003

सं. 1-2/2001-प्रशा. I--राष्ट्रपति, श्री के. एच. खान, आई.टी.एस. को 2 जुलाई 2003 (पूर्वाह्न) से दूरसंचार आयोग का सदस्य (प्रौद्योगिकी) नियुक्त करते हैं।

मन मोहन सिंह, अवर सचिव

दिनांक 24 जुलाई 2003

सं. पी एफ-2114/प्रशा. I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री के. आर. रंगनाथन, अवर सचिव, दूरसंचार विभाग जो फिलहाल भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर हैं, सरकारी सेवा से 31 जुलाई 2003 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

मन मोहन सिंह, अवर सचिव

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 जुलाई 2003

सं. 13-21/2003-एसजीजी --श्री आर.पी. शर्मा, सहायक निदेशक (फिलैटली), डाक विभाग अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31.07.2003 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

आर. एस. यादव, सहायक महानिदेशक (एसजीजी)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. ई आर बी-1/2003/2/56--श्री वी. एन. माथुर, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भारतीय रेल यातायात सेवा को 11.7.03 के पूर्वाह्न से 22,400-24,500/- रु. के ग्रेड में सलाहकार (कोचिंग), रेलवे बोर्ड के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. आर. जारुहार, सचिव, रेलवे बोर्ड

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई 2003

सं.-4/2003, (4/6/2000-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक, श्री दया निधि जोशी को दिनांक 08.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

सं. 5/2003, (4/6/2000-प्रशा.)--राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री अभिजीत चक्रवर्ती को दिनांक 21.05.2003 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक 6500-200-10500/- रुपये के वेतनमान में जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. 6/2002, (22/427/99-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार में उप सचिव, श्री आई.एल. भाटिया को दिनांक 5.7.2003 (पूर्वाह्न) से उनके लिए किए गए विशेष प्रावधान के रूप में निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

नरेश कुमार गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जुलाई 2003

सं. 22/2003, (25/1 (13)/2003-स्थापना-एक)-- संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री सुबोध कुमार सिंह को दिनांक 30.06.03 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु. 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री सुबोध कुमार सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं. 23/2003, (30/2/2003-स्थापना-एक)--केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री शील रजनीश, सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 23.07.2003 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

दिनांक 31 जुलाई 2003

सं. 24/2003, (25/1 (19)/2001-स्थापना एक)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा-2001 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री प्रदीप कुमार को दिनांक 4.7.03 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप 'क') सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (मैकेनिकल) के पद पर रु. 8000-13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री प्रदीप कुमार को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई 2003

सं. पी.एफ./682/आई.आई.एस.--अभिचारिता की आयु प्राप्त होने पर भारतीय सूचना सेवा समूह 'क' के वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी श्री एन.एन. शर्मा दिनांक 30 जून, 2003 की अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

श्री एन.एन. शर्मा ने इसी तारीख से प्रादेशिक निदेशक, विज्ञापन एवं दूर्य प्रचार निदेशालय, बंगलौर (नई दिल्ली में स्थानांतरित) के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2003

सं. 3/11/2002-प्रशा.2--राष्ट्रपति, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को इस मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में उनके नाम के आगे दर्शायी गई तारीखों की पूर्वाह्न से डेस्क अधिकारियों के रूप में नियुक्त करते हैं:--

नाम और इला संख्या	कार्यालय	दिनांक
श्रीमती रीना गुहा (14430)	मुख्य सचिवालय	30.06.2003
श्री वी.के. शर्मा (14174)	मुख्य सचिवालय	08.07.2003

वे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16.10.2000 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/24/97-पी.आई.सी. की शर्तों के अनुसार डेस्क अधिकारी के रूप में नियुक्त होने पर अनुभाग अधिकारी की अपनी श्रेणी के वेतन के अतिरिक्त प्रतिमाह 300/- रु. का डेस्क भत्ता आहरित करेंगे।

एस. एम. शर्मा, अवर सचिव (प्रशा.)

नई दिल्ली, दिनांक 05 अगस्त 2003

सं. 1/15/2000.एम.यू.सी.--इस मंत्रालय की दिनांक 20.06.2000 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, राष्ट्रपति, विज्ञापन एवं दूर्य प्रचार निदेशालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली में संयुक्त निदेशक (विज्ञापन) (वेतनमान : 12,000-375-16,500/- रु.) के रूप में कार्यरत श्री एस.वी. मेनन, वरिष्ठ ग्रेड 'क' अधिकारी, भारतीय सूचना सेवा की प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 07.06.2003 से आगे छः माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

एस. वी. कृष्णन, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 31st July 2003

No. A. 34011/4/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri Tek Chand, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat, with effect from the forenoon of 1st August 2003.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

The 01st August 2003

No. A. 36011/49/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri V. Ponraj as Director (Technology Interface), President's Secretariat, w.e.f. the forenoon of 4th August, 2003.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

No. A. 9. 39011/17/01-Admn.—On attaining the age of superannuation, Shri Mam Raj Singh, Under Secretary President's Secretariat, retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31st July 2003.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn.)

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st July 2003

No. RS/1666/Estt.(P).—On attaining the age of superannuation, Shri Jagdish Prakash Grr, Security Officer retired from service w.e.f. the afternoon of the 31st July, 2003.

P. R. GUHA ROY, Dy. Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 31st July 2003

No. PF. 1583(3)/AN-I/GN-4953/2003.—On attaining the age of superannuation, Shri Shital Kumar Sharma, Deputy Secretary has retired from service w.e.f. the afternoon of 31st July, 2003.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

The 1st August 2003

No. PF. 1583 (3)/AN-I/GN-4954/2003.—Shri Shital Kumar Sharma, retired Deputy Secretary is appointed as Officer on Special Duty (IT) in the scale of pay of Rs. 12750-375-15500/- for the work pertaining to the Committee on Information Technology, for a period of one year w.e.f. 1st August 2003 upto 31st July, 2004 or till the expiry of the term of 13th Lok Sabha or until further orders, whichever is earlier.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi-110001, the 17th July 2003

No. Adm. III/7 (667)/69.—On his attaining the age of superannuation, Shri Gopal Datta Chawla, PS of Planning Commission retires from government service w.e.f. 31-7-2003 (A/N).

S. A. RAHIM, Under Secy.

No. A. 19016/105/83-Adm.III.—On his attaining the age of superannuation, Shri Dharam Vir Seth, Sr. PPS of Planning Commission retires from government service w.e.f. 31-7-2003 (A/N).

S. A. RAHIM, Under Secy.

New Delhi, the 31st July 2003

No. F.6(1674)/96-Adm.I.—On attaining the age of superannuation, Shri P. N. Nigam, Deputy Adviser (Monitoring Agriculture), Planning Commission retires from Government service w.e.f. 31-7-2003 (A/N) and consequently he has relinquished charge from that date.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi, the 28th July 2003

No. A-32014/1/98-Adm.III.—The President is pleased to appoint Shri Vedantam Giri, Deputy Director, Directorate General of Supplies and Disposals, Ministry of Commerce & Industry, New Delhi, to the post of Chief Administrative Officer in National Sample Survey Organization (Field Operations Division), Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi in the pay scale of Rs. 10000-325-15200/- on deputation for a period of three years with effect from 01-07-2003.

V. K. KAPOOR, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE**(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)**

New Delhi, the 15th July 2003

F. No. A. 12034/1/2003-Admn.IV(LA).—The President is pleased to relieve Shri N. Gopalakrishnan, Private Secretary in the Ministry of Finance, Department of Expenditure who is presently working as Assistant Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of Law & Justice (Shri Arun Jaitley), for his appointment as Officer on Special Duty in the Building Material and Technology Promotion Council under the Ministry of Urban Development and Poverty Alleviation w.e.f. 15-7-2003 (A/N).

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

The 17th July 2003

F. No. A. 12034/2/2003-Admn.IV(LA).—The President is pleased to appoint Shri Kamlesh Mishra, Deputy Manager (PR), Cement Corporation of India, as Additional Private Secretary in the personal section of the Hon'ble Minister of State for Law & Justice (Shri P. C. Thomas) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200 w.e.f. 26-05-2003. The appointment of Shri Kamlesh Mishra is at the pleasure of, and co-terminus with the tenure of Shri P. C. Thomas as Minister of State for Law & Justice.

PARKASH CHANDRA, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 29th July 2003

No. K. 13032/4/2003-US.II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sarosh Homi Kapadia, Judge of the Bombay High Court, to be the Chief Justice of the Uttaraanchal High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

DURGADAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the July 2003

No. A-32014/03/2002-Ad.I.—The President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Principal Private Secretaries Working in the Ministry of Home Affairs for a further period upto 31-12-2003 or till regular PPS become available or until further orders, whichever is earlier. The post of PPS is purely on ad-hoc in nature and shall not confer any right on them to continue in the posts indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS of CSSS :—

S. No., Name of the Officer

S/Shri

1. V. K. Narang
2. H. C. Narang
3. P. Divakaran
4. Ms. Anita Chakraborty
5. V. Mithran

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

New Delhi, the 05th August 2003

No. 1-11014/6/2002-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Manipur, Tripura, Punjab and Tamil Nadu, the Central Government hereby transfers Dr. Mahender Kumar Rathod, IPS (MT : 2001) (Tripura Segment), and Ms. Kalpana Nayak, D. IPS (PB : 1998), from the IPS cadres of Manipur-Tripura and Punjab respectively to the IPS cadre of Tamil Nadu on the ground of their marriage.

J. B. KAUSHISH, Desk Officer

The 5th August 2003

No. 14013/31/99-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra with effect from the dates shown against him :—

Name, Batch & Date of Confirmation

Sh. M. G. Salvi, 1989—3-2-1996

SANGEETA SINGH, Director (Services)

New Delhi, the 30th July 2003

No. A. 32013/6/2003-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Geeta Ram, CSS, as Director in the Department of Pensions and Pensioners Welfare with effect from the forenoon of 22nd July, 2003 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

V. K. VELUKUTTY, Under Secy.

New Delhi, the 30th July 2003

No. 13017/43/2002-AIS(I).—In exercise of the powers conferred by Rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, the Central Govt. hereby accords approval for deputation of Shri M. V. S. Rami Reddy, IAS (RR : 88) from IAS Cadre of Uttar Pradesh to the IAS Cadre of Andhra Pradesh for a period of three years with effect from the date of his reporting for duty to the Government of Andhra Pradesh.

K. K. SHARMA, Desk Officer

New Delhi-110067, the 31st July 2003

No. 13016/4/2002-Trg.I.—The Secretary, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training is pleased to appoint Shri Moloy Sanyal, Section Officer (Central Secretariat Services) Ministry of Youth Affairs and Sports as Assistant Director (Office Management (ISTM)) New Delhi, on deputation basis, for a period of 5 years with effect from the afternoon of the 14th July, 2003 or until further orders whichever is earlier.

MANISHA BHATNAGAR, Desk Officer

(TRAINING DIVISION)

New Delhi-110067, the 30th July 2003

No. 13019/9/2000-ACADEMY(DESK).—The President is pleased to appoint Shri S. Krishnan, IAS (TN : 89), Deputy Director as Deputy Directors (Senior) (Director level) in Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in the pay scale of Rs. 15100-400-18300/- w.e.f. 1-7-2003 (forenoon) as a measure personal to him for the balance period of his tenure which would be upto 2-7-2005 or until further orders whichever event takes place earlier.

JAGMOHAN GUPTA, Director

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

New Delhi, the 25th July 2003

No. D. III/460/CF-10/2003.—The President of India is pleased to recognise the appointment of Mr. Mohammed Meerashahib Abdul Raheem as Consul General of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Mumbai with immediate effect.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 29th July 2003.

No. 14012/7/2002-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following member of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Chhattisgarh with effect from the date shown against him :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Ms. Richa Sharma, 1994—4-9-1996

SANGEETA SINGH, Director (Services)

No. 14012/2/2003-AIS.III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, in the Indian Administrative Service, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Maharashtra with effect from the dates shown against them :—

S. No., Name, Batch & Date of Confirmation

1. Sh. Kunal Kumar, 1999—20-9-2001
2. Smt. Richa Bagla, 1999—20-9-2001
3. Sh. Atul Patne, 1999—20-9-2001

SANGEETA SINGH, Director (Services)

The consular jurisdiction of Mr. Mohammed M. A. Raheem comprises of the States of Maharashtra, Goa and Gujarat.

P. P. SIRCAR, Dy. Chief of Protocol (F)

**MINISTRY OF FINANCE AND COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF REVENUE)**

New Delhi, the 18th July 2003

No. of 2003, F. No. A-19013/13/2002-Ad.IA.—In pursuance of the Department of Expenditure's O.M. No. A-32022/2/99-CAS, dated 10-7-2003, the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri Vijay Kumar as Senior Principal Private Secretary for a further period of six months w.e.f. 1-7-2003 to 31-12-2003 or till a regular Sr. PPS becomes available or till further orders, whichever is earlier.

2. Ad-hoc promotion of Shri Vijay Kumar to the post of Senior Principal Private Secretary shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim any seniority in the grade of Senior PPS.

R. K. MALHOTRA, Under Secy.

New Delhi, the 28th July 2003

No. 64 (F. No. A38011/5/2003-Ad.I).—Shri Pradip Saxena, an officer of the Indian Revenue Service (1966), posted as Member, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue voluntarily retired from Government Service on 28 July 2003 (F/N) to join as Member, Settlement Commission (IT/WT), Additional Bench at Chennai.

PREETI PANT, Under Secy.

No. 65 (F. No. A. 38011/6/2003-Ad.I).—Shri S K Dasgupta, an officer of the Indian Revenue Service (1967), posted as Member, Central Board of Direct Taxes in the Department of Revenue voluntarily retired from Government Service on 28th July 2003 (F/N) to join as Member, Settlement Commission (IT/WT), Additional Bench at Kolkata.

PREETI PANT, Under Secy.

New Delhi, the 29th July 2003

No. 66: (F. No. A. 19014/3/2003-Ad.II).—The President of India is pleased to appoint Shri Ram Naresh, Assistant, Department of Revenue in the cadre of Ministry of Finance as Section Officer (Excluded/TPL) in the Department of Revenue on deputation basis for a period of three years w.e.f. 28-7-2003 (F/N) and until further orders.

PREETI PANT, Under Secy.

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

New Delhi, the 29th July 2003

INCOME TAX ESTABLISHMENT

No. 9 F. No. A-32012/7/2003-Ad.VI.—In supersession of this Department's Notification No. 2 (F.No. A-32012/12/2000-Ad. VI) dated 18-4-2001 in so far as it relates to the grant of Senior Scale to Shri G. S. Suryavanshi (93584), Deputy Commissioner of Income Tax, Pune, the President is pleased to grant Senior Scale the grade of Deputy Commissioner of Income Tax with the pay scale of Rs. 10,000—15,200/- to Shri G. S. Suryavanshi w.e.f. 1st June, 1998.

P. C. BHATT, Under Secy.

**DIRECTORATE OF INCOME TAX
(ORGANISATION & MANAGEMENT SERVICES)**

New Delhi-110066, the 30th June 2003

F. No. 36/5/2001/AD/DOMS/290.—On his attaining the age of superannuation, Sh. B. K. Mishra, Additional Director

of Income-tax has relinquished the charge of Additional Director of Income-tax in the Directorate of Income-Tax (O&MS), New Delhi in the Afternoon of 30-06-2003.

K. K. JHA, Director of Income-Tax

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 30th July 2003

No. A/ 12011/2/98-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri J. K. Arya, Junior Accounts Officer of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs to the post of Accounts Officer in the pay scale of Rs. 7450-225-11500 w.e.f. 22-7-2003 (F/N) in the same Department, on ad-hoc basis, for a period of six months or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

No. A. 19011/6/2003-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Anirudh Tewari, IAS (PB:90) as Deputy Secretary in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, with effect from the forenoon of 16-6-2003 for the balance period of his tenure i.e. upto 21-11-2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

S. SOUNDER RAJAN, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 31st July 2003

No. A. 12034/8/2000-Ad.II.—The President is pleased to appoint the following six officers to the post of Assistant Deputy Director in the Staff Inspection Unit of Department of Expenditure in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- on deputation basis initially for the period of one year with effect from the date mentioned against their names :—

Sl. No., Name of the Officer, Parent Office (with designation) & Date of Appointment

S/Shri

1. Rakesh Sharma, Research Assistant in Staff Selection Commission—30-6-2003 (A/N).
2. Dharma Singh, Assistant Employment Officer in M/o Labour—01-7-2003 (F/N).
3. K. B. Dania, Asstt. Met. Grade-II in India Meteorological Deptt.—04-7-2003 (F/N).
4. Ashok Kumar Sharma, Assistant in M/o Health & Family Welfare—04-7-2003 (A/N).
5. V. K. Nctiyal, Assistant in M/o Human Resource Development—10-7-2003 (F/N).
6. Vijay Kaushik, Assistant in Ministry of Agriculture—15-7-2003 (F/N).

DR. HARMEET SINGH, Under Secy.

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)**

New Delhi, the 30th July 2003

No. A-22015/1/98-E.II.—The President is pleased to appoint Shri S. Palaniswamy, PPS (in-situ) borne on the cadre of the Ministry Home Affairs as Principal Private Secretary in the Department of Commerce with effect from the forenoon of the 28th July, 2003 on ad-hoc basis for a period up to 31-12-2003 in the pay scale of Rs. 10000—15200.

The appointment of Shri Palaniswamy is purely on adhoc basis and will not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the Private Secretary Grade of CSSS.

N. P. DWTVEDI, Dy. Secy.

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 31st July 2003

No. A-12022/1/2001-Cadre.—The President is pleased to appoint Shri K. P. Nair, PPS (in-situ) as Principal Private Secretary on ad-hoc basis for a period upto 31-12-2003 or till the post is filled up on regular basis, whichever is earlier in the scale of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Central Secretariat Stenographer's Service Cadre of Department of Commerce (Supply Division) with effect from the forenoon of 28th July, 2003.

2. The above appointment is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the private secretary grade of CSSS.

3. Shri Nair, PPS (ad-hoc) is posted in DGS&D.

S. DAS, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 1st August 2003

No. 23/2003 (2/4/2001-HRD-I/43154).—The President is pleased to appoint Miss K. Chandamathi of Grade-II of the Indian Trade Service (i.e. Deputy Director General of Foreign Trade) on promotion to the Grade-I of ITS (Joint Director General of Foreign Trade) in the pay scale of Rs. 12000-375-16500/- on ad-hoc basis with effect from the date of joining the post for a period of six months in the place of posting indicated in this Office Order No. 94/2003 dated 01-08-2003.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director
General of Foreign Trade

No. 244/2003 (2/1/2002-HRD-I/2003).—The President is pleased to appoint on promotion Dr. (Mrs.) Maya D. Kem, a Grade-I Officer of the Indian Trade Service to the post of Additional Director General of Foreign Trade in the Directorate General of Foreign Trade in the pay scale of Rs. 18400-500-22400/- with effect from the date of her assumption of the charge of the post of Additional Director General of Foreign Trade.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director
General of Foreign Trade

The 5th August 2003

No. 17/2003 (6/2158/99/HRD-I/3253).—The President is pleased to appoint Shri Bhupinder Singh, an officer of the Central Secretariat Official Language Service, as Assistant Director (Official Language), on regular basis, in Directorate General of Foreign Trade, with effect from the forenoon of 13th December, 2002.

The above appointment is made in accordance with Department of Official Language Office Order No. 5/14/2002-OLS (S) dated 13-2-2002 and is subject to the conditions stipulated therein.

A. K. M. CHAKANKAR, Jt. Director
General of Foreign Trade

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 23rd July 2003

No. A-12011/1/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Harish Kumar, IAS (AP : 1986) as Director in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Chemicals and Petrochemicals with effect from the forenoon of 18th July, 2003 or a period upto 2-4-2005 or until further orders, whichever event takes place earlier.

R. P. VASISHTHA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 29th July 2003

No. A-32014/1/2001-Admn.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 4th/7th February, 2003, the President is pleased to appoint Smt. Geeta Mishra, Assistant to the post of Section Officer in the pay Scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 1-7-2003 to 30-9-2003 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on her any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time the ad-hoc promotion and revert her to the post of Assistant.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

No. A-32014/1/2001-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Singh, Assistant of Ministry of Coal to the post of Section Officer in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 1-7-2003 to 30-9-2003 or till regular candidate becomes available, whichever is earlier.

The above mentioned promotion is being made on purely ad-hoc basis and the ad-hoc promotion will not confer on him any right for regular promotion. The Government reserve the right to cancel at any time ad-hoc promotion and revert him to the post of Assistant.

PARVATI KAUTIA, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 30th July 2003

No. 5(12)/2002-Estt.—On his nomination for the appointment of Chief Secretary, Government of Punjab, Shri J. S. Gill, IAS (PB : 68) is relieved of his duties of the office of Secretary, Ministry of Steel w.e.f. 30-7-2003 (F/N).

BABOO RAM, Under Secy.

No. 5(5)/2003-Estt.—The President is hereby pleased to appoint Shri V. K. Duggal, IAS (AGMU : 68), as Secretary, Ministry of Steel w.e.f. 30-7-2003 (F/N) and until further orders.

BABOO RAM, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 27th July 2003

No. A-19011/15/2001-P.II().—With the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide their O.M. No. 20/27/98-C.S.II (Vol-II) dated 30-6-2003, the ad-hoc appointment of Shri Chaman Lal as Senior Private Principal Secretary in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended from 1-7-2003 to 31-12-2003 or till regular incumbent becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The continuation of ad-hoc promotion of Shri Chaman Lal beyond 1-7-2003 to the post of Senior Principal Private Secretary is purely ad-hoc in nature and will not confer any right on him to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of Sr. PPS or CSSS.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

The 30th July 2003

No. A-12012/5/2003-P.II().—The President is pleased to appoint Shri Navin B. Chawla, IAS (AGMU:69), as Special Secretary in the scale of Rs. 26,000/- (fixed) in the Ministry of Environment & Forest w.e.f. the forenoon of the 30th July, 2003.

ZAFRUL ISLAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 29th July 2003

No. A-38012/5/2003-CHS II.—Consequent on her proceeding on voluntary retirement Dr. (Smt.) Rekha Aggarwal, an Officer of the Supertime grade in General Duty Sub-cadre of Central Health Service relinquished the charge of the post of Additional Director (SZ) under CGHS, Delhi on 28-2-2003 (A/N).

N. K. SARWAL, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 30th July 2003

No. A-12025/395/91-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Aditya Behari Lal to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000/- (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. Aditya Behari Lal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut w.e.f. the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/100/94-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Bijay Kumar Sharma to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000 in a temporary capacity with effect from the forenoon of 21st September, 1994 until further orders.

2. Dr. Bijay Kumar Sharma is posted as Medical Officer under Ministry of Labour, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 32012/1/2003-CHS. I.—Consequent on their promotion to the post of Chief Medical Officer, the following Officers belonging to the General Duty Medical Officer Sub-Cadre of the Central Health Service relinquished the charge of the post of Senior Medical Officer and assumed the charge of the post of Chief Medical Officer on the dates indicated against their respective names in the concerned organisations as indicated below :—

Sl. No., Name of the Officer, Organisation, Date of Relinquishment of charge as SMO and Date of Assumption of charge as CMO

1. Dr. C. R. Sarangi, RHTC, Najafgarh, New Delhi, 5-4-02 (F/N)—5-4-02 (F/N)
2. Dr. (Smt.) Vijay Laxmi, RHTC, Najafgarh, New Delhi, 5-4-02 (F/N)—5-4-02 (F/N)
3. Dr. Bhaskar Sen, RHTC, Najafgarh, New Delhi, 5-4-02 (F/N)—5-4-02 (F/N)
4. Dr. Kalyani Behra, Dr. RML Hospital, 5-4-02 (F/N)—5-4-02 (F/N)

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

The 31st July 2003

No. A. 12025/396/91-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Aneeta Aren to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2200-4000 (pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 22nd October, 1991 until further orders. Dr. (Smt.) Aneeta Aren is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Meerut with effect from the same date.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/159/99-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sanjay Kumar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 6th March, 2000 until further orders. Dr. Sanjay Kumar is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

No. A. 12025/60/2001-CHS. I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ashok Kumar to the Medical Officers' Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8000-275-13500 in a temporary capacity with effect from forenoon of the 26th December 2001 until further orders. Dr. Ashok Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, New Delhi.

JAGDISH KUMAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ISM & H)

New Delhi, the 31st July 2003

No. A. 32012/1/2002-ISM (E-I).—Consequent upon their promotion, the following officers relinquished the charge of the post of Medical Officer (Ay.), on the forenoon of 22nd August, 2001 and assumed the charge of the post of Senior Medical Officer (Ay.) in the pay scale of Rs. 10000-325-15200+NPA on the forenoon of the 22nd August, 2001 :—

S. No., Name of Officer and Place of posting

1. Dr. M. Srindhacharya—CGHS, Hyderabad
2. Dr. V. K. Agnihotri—CGHS, Kanpur
3. Dr S. P. Pandey—CGHS, Mumbai
4. Dr. (Mrs.) P. R. Sharma—CGHS, Mumbai

N. K. LAKHANPAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 24th July 2003

No. 11012/2/2003-Trade.—The President is pleased to appoint Shri G. S. Dutt, IAS (BH : 73) as Managing Director, (Joint Secretary level), Small Farmers Agri Business Consortium (SFAC) with effect from 23-07-2003 (F/N) in the pay scale of Rs. 18400-22400.

K. D. SINHA, Jt. Secy. (Trade)

The 31st July 2003

No. 19011/389/2003-E. V.—Consequent on his attaining the age of superannuation, the President is pleased to retire Shri K. K. Narula, a regular Soil Survey Officer of All India Soil and Land Use Survey and working as Deputy Commissioner (SC, I&C) (Rs. 12000-16500/-) in the Department of Agriculture & Cooperation on deputation basis, from Government service with effect from the afternoon of 31-07-2003.

K. D. UPRETI, Under Secy.

New Delhi, the 14th July 2003

No. 12022/1/2003-E.I.—The President is pleased to appoint Smt. Anjali Prasad, IAS (UL : 83), as Joint Secretary in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture & Cooperation) in the pay scale of Rs. 18,400-22,400 with effect from the forenoon of 14-7-2003 for the balance period of her normal Central Deputation Tenure of five years i.e. up to 02-12-2006 or until further order, whichever event takes place earlier.

SARASWATI PRASAD, Director (Pers.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 31st July 2003

No. 4-17/2001-Admn.—Consequent upon attaining the age of superannuation, i.e., 60 years, Dr. R. V. Vaidyanatha Ayyar, IAS (AP : 66), Secretary in the Department of Women & Child Development, Ministry of Human Resource Development, stands retired with effect from the afternoon of 31st July, 2003.

VINEET JOSHI, Dy. Secy.

The 12th May 2003

No. A-12022/10/2001-Estt.(Pt).—In pursuance of the Department of Personnel and Training's OM No. 31/07/2002-EO (MM-1) dated 10-12-2002 and with the approval of the competent authority, Shri Khaleeq Ahmed, Under Secretary in this Ministry is relieved of his duties in this Ministry w.e.f. forenoon of 14th May, 2003 with instructions to take up his new assignment in the Department of Food & Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution immediately.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 20th May 2003

No. A-12022/12/2001-Estt.—On recommendation for inclusion in the Select List of Section Officer's Grade of the Central Secretariat Service for the Year 2001 (Departmental Exam Quota) based on the results of the Section Officers' Limited Departmental Competitive Examination, 2001 conducted by the Union Public Service Commission and on his nomination to this Ministry vide DOPTs OM No. 5/7/2003-CSI dated 05th May, 2003, the President is pleased to appoint Shri Arvind Shukla (Rank No. 21), permanent Assistant of the CSS cadre (Group 'B' Gazetted, Ministerial) of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500, w.e.f. the forenoon of 14th May, 2003.

2. Shri Shukla will be on trial for a period of two years from the date of his appointment.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 26th May 2003

No. A-19011/12/2001-Estt.—Consequent upon her selection for deputation/contract on foreign service of Smt. Aghala Mediratta, Research Officer (Programme) in the Drug Abuse & Prevention Division of the Ministry of Social Justice & Empowerment, is hereby relieved of her duties to her parent Organization i.e. Town & Country Planning Organization under the Ministry of Urban Development & Poverty Alleviation, w.e.f. the afternoon of 26th May 2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 5th June 2003

No. A-12034/1/2003-Estt.—The President is pleased to relieve the under mentioned officers, who were working in the personal staff of the former Minister of State for Social Justice and Empowerment (Dr. Sanjay Paswan), from their duties in the posts mentioned against each with effect from the forenoon of the 25th May, 2003.

S. No., Names & Name of post

1. Shri Nagendra Kumar, Assistant PS
2. Shri Prabhat Ranjan, First P.A.

2. The services of Shri Nagendra Kumar and Shri Prabhat Ranjan are placed at the disposal of Ministry of HRD w.e.f. 25-5-2003 (Forenoon) in terms of Ministry of HRD's O. M. No. A-32011/10/2003-E.I dated 30th May, 2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 9th June 2003

No. A-12022/10/2001-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 31/7/2002-EO (MM-1) dated 10th December, 2002, and on being relieved by the Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs and Public Distribution, Smt. Savita Prabhakar, CSS is appointed as Under Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of 14th May, 2003.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-1, the 16th April 2003

No. A-12034/1/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Sachin Sharma son of Shri Ashok Sharma as Assistant Private Secretary in the personal staff of Dr. Satya Narayan Jaitiya, Minister of Social Justice and Empowerment in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 with effect from the forenoon of the 10th October, 2002 on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister in the Ministry or until further orders, whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 5th May 2003

No. A-12034/1/2001-Estt.—The President is pleased to relieve Shri Sachin Sharma, Assistant Private Secretary in the personal staff of the Minister of Social Justice and Empowerment (Dr. Satya Narayan Jaitiya) from his duties in this Ministry with effect from the afternoon of the 02nd April 2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12034/1/2001-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Tarun Kumar, a substantive Steno Grade 'C' of Central Secretariat Stenographers Service cadre of this Ministry, to the post of First Personal Assistant in the personal staff of Dr. Satya Narayan Jaitiya, Minister of Social Justice and Empowerment in the pay scale of Rs. 6500-200-10500 [Included in Grade 'A&B' (merged) of CSSS] with effect from the forenoon of the 1st May, 2003 on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister or until further orders, whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 7th May 2003

No. A-12034/1/2001-Estt. (Pt).—The President is pleased to relieve Shri Mohal Lal, First P. A. in the personal staff of the Minister of Social Justice and Empowerment (Dr. Satya Narayan Jaitiya) from his duties in this Ministry with effect from the afternoon of the 30th April, 2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 8th May 2003

No. A-12034/1/2003-Estt.—Consequent upon the creation of post of Officer on Special Duty in the personal staff of the Minister of State (SJ&E) vide this Ministry's Order No. A-11013/1/2003-Estt. dated 07-03-2003, the President is pleased to appoint Shri Nirmal Kumar Azad, IPS (BH : 94) as Officer on Special Duty (OSD) to Dr. Sanjay Paswan, Minister of State for Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of the 7th May, 2003.

2. The appointment of Shri Azad will be at the level of Under Secretary upto 30-6-2003 and thereafter w.e.f. 01-7-2003 at the level of Deputy Secretary for a period of three years i.e. upto 06-5-2006 or till he ceases to function as OSD to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

2. The tenure of Smt. Prabhakar in the Ministry shall be 7 years from the date of taking over the charge of the post or until further orders which may be earlier or later than the date of expiry of the 7 years tenure, or till the date of his superannuation, whichever event takes place the earliest.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12034/1/2001-Estt.—Consequent upon the creation of post of Officer on Special Duty in the personal staff of Minister (SJ&E) vide this Ministry's Order No. A-11013/2/2001-Estt. dated 26-05-2003, the President is pleased to appoint Shri Anil Kumar Saxena, IIS as Officer on Special Duty (OSD) to the Minister of Social Justice and Empowerment (Dr. Satya Narayan Jatiya) in the pay scale of Rs. 14300—18300 with effect from the forenoon of the 3rd April, 2003.

2. The appointment of Shri Saxena is purely temporary and co-terminus with the tenure of the Minister in the Ministry or until further orders, whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 11th June 2003

No. A-12022/8/98-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 20/2/98-CS.II dated 31st January 2003, the President is pleased to appoint Shri H. O. Madan, a regular Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Home Affairs working as Principal Private Secretary (In-situ), to the Principal Private Secretary grade of CSSS on ad-hoc basis in the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 10000—15200 with effect from the forenoon of 30th May, 2003 for a period upto 30-6-2003 or till the posts are filled up on regular basis, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely temporary and will not confer upon Shri Madan any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of Principal Private Secretary of CSSS.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 30th June 2003

No. A-19011/18/2001-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri C. Gopal Reddy, IAS (KN : 66) Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment retired from the Government service with effect from the afternoon of 30th June, 2003.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12034/1/2003-Estt.—Consequent upon relinquishing the office of Minister of State for Social Justice and Empowerment by Dr. Sanjay Paswan, the President is pleased to relieve Shri Nirmal Kumar Azad, IPS (BH : 94) from the post of Officer on Special Duty (OSD) to the Minister of State for Social Justice and Empowerment (Dr. Sanjay Paswan) in this Ministry with effect from the forenoon of the 25th May, 2003.

2. The services of Shri Azad are placed at the disposal of Ministry of Human Resource Development w.e.f. 25-05-2003 (forenoon).

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12034/3/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Md. Anis Ansari, a substantive Steno Grade 'D' in the O/o Directorate General of Supplies and Disposals, Department of Commerce, to the post of First Personal Assistant in the personal staff of Shri Nagmani, Minister of State for Social Justice and Empowerment in the pay scale of Rs.

650-200-10500 (Group 'B', Gazetted) with effect from the forenoon of the 26th May, 2003 on purely temporary and co-terminus basis with the tenure of the Minister of State or until further orders, whichever is earlier.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12034/3/2003-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar, IPS (TN : 89) as Private Secretary to Shri Nagmani, Minister of State for Social Justice and Empowerment with effect from the forenoon of the 30th June, 2003.

2. The appointment of Shri Pramod Kumar will be at the level of Deputy Secretary upto 30-6-2003 and thereafter w.e.f. 01-7-2003 at the level of Director for a period of five years i.e. upto 29-6-2008 or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 4th July 2003

No. A-12022/3/2003-Estt.—The President is pleased to relieve Ms. Jayashree Mukherjee, IAS (MH:86), Director of her duties in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 06-07-2003.

2. Ms. Mukerjee is further granted Earned Leave for a period of 60 days w.e.f. 07-07-2003 till 04-09-2003. After the expiry of the aforesaid leave, the services of Ms. Mukerjee will stand placed back at the disposal of her parent cadre i.e. the Government of Maharashtra.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 9th July 2003

No. A-12022/2/2002-Estt.—The President is pleased to appoint Shri B. S. Baswan, IAS (CG : 67) as Secretary in the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. forenoon of 01st July, 2003, until further orders.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

The 14th July 2003

No. A-12022/8/98-Estt.—In continuation of this Ministry's Notification of even No. dated 03rd July, 2003 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's O. M. No. 20/9/2003-CS.II, dated 30th June, 2003, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Malhotra to the post of Principal Private Secretary in CSSS cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 10000—15200 for a period upto 31-12-2003 or till a regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Malhotra is purely temporary and will not confer upon him any right to claim for any regular appointment, seniority, confirmation and promotion etc. in the grade of Principal Private Secretary.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12022/8/98-Estt.—In continuation of this Ministry's Notification of even No. dated 11th June, 2003 and in pursuance of the Department of Personnel and Training's O. M. No. 20/9/2003-CS.II, dated 30th June, 2003, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri H. O. Madan to the post of Principal Private Secretary in CSSS cadre of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the scale of pay of Rs. 10000—15200 for a period upto 31-12-2003 or till a regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Madan is purely temporary and will not confer upon him any right to claim for any regular appointment, seniority, confirmation and promotion etc. in the grade of Principal Private Secretary.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

No. A-12022/14/2001-Estt.—In continuation of this Ministry's Notification of even No. dated 27-12-2003 and in pursuance of DOPT's O.M. No. 20/27/98-CS-II (Vol.II) dated 30th June, 2003, the President is pleased to extend the ad-hoc appointment of Shri Balraj Kumar to the post of Senior Principal Private Secretary of CSSS of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the pay scale of Rs. 12000-16500 for a period upto 30-9-2003 or till regular Sr. PPS become available or until further order, whichever is earlier.

2. The appointment is purely temporary and will not confer upon Shri Balraj Kumar any right to claim for regular appointment, seniority, confirmation, promotion etc. in the grade of Senior Principal Private Secretary.

L. C. MAHRRA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th July 2003

No. 24020/1/2000-Estt.—On completion of his central tenure and study leave the President is pleased to relieve Dr. M. S. Ahmad, I.A.S. (BH : 73), Jt. Secy. in the Ministry of Tribal Affairs w.e.f. the afternoon of 30-6-2003 and place his services at the disposal of his parent cadre, the State Govt. of Bihar w.e.f. 1-7-2003.

S. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 23rd July 2003

No. 3(6)/2001-Pers.I.—The President is pleased to appoint the following Scientist 'F' of this Department as Scientist 'G' in the scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- in the Department of Information Technology w.e.f. the forenoon of 1st July, 2003 (F.N.) :

1. Shri B. S. Bedi (E Code. No. 81)
2. Shri L. A. Namrani (E. Code. No. 92)
3. Shri R. C. Sachdeva (E. Code. No. 100)
4. Dr. S. P. Uttam (E. Code. No. 109)
5. Shri S. P. Singh (E. Code. No. 110)
6. T. K. Sarkar (E. Code. No. 113)

S. LAKSHMINARAYANAN, Addl. Secy.

New Delhi-110003, the 31st July 2003

No. 4 (302)/86-Pers.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Jatinder Kumar, Scientist 'G' (Emp. Code No. 57) in the Department of Information Technology will be retiring from service with effect from the afternoon of 31-08-2003.

R. K. MANCHANDA, Dy. Director

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi, the 24th July 2003

No. 7(2)/2001-PA-II.—The President is pleased to appoint the following officers to higher grades indicated below to the review promotion w.e.f. 1-7-2003 or from the date of assumption of charge of post, whichever is later :—

Sl. No., Name & Designation, Place of Posting, Post of Promotion & Scale of Pay

1. Shri Sabal Chatterjee, Scientist 'F', ERTL(E), Kolkata, Scientist 'G' Rs. 18400-22400/-.
2. Shri K. Chandrasekar, Scientist 'F', ETDC, Bangalore, Scientist 'G' Rs. 18400-22400/-.

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Dir.

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 28th July 2003

No. A-39013/1/1/1995-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri D. V. Kennedy, Emp-Code-1151, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Tamil Nadu State Unit, Chennai w.e.f. the afternoon of 24th January 1996 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

No. A-39013/1/1996-Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Shri M. Munavar Sultan, Emp-Code-2221, from the post of Scientist 'B', National Informatics Centre, Tamil Nadu State Unit, Chennai w.e.f. the afternoon of 22nd May 1996 and he is relieved of his duties from the same day.

SHYAM SUNDER, Jt. Director (Admn.)

(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 31st March 2003

No. A-32014/9/98-Admn.II.—The President is pleased to permit S/Shri A. M. Harish, Padam Singh Tangania and J. R. Pushkarna, Principal Private Secretary of this Department to continue as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 12000-375-16,500/- in the Central Secretariat Stenographers Service cadre of Department of Telecommunications w.e.f. the forenoon of 1st January, 2001 to 21st March, 2001.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn-II)

No. A-32014/8/2002-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri Amar Singh Principal Private Secretary of this Department as Senior Principal Private Secretary on ad-hoc basis in the scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Central Secretariat Stenographers Service cadre of Department of Telecommunications w.e.f. the forenoon of 4th March, 2003 to 30th June, 2003 or till regular incumbent joins the post, whichever is earlier.

2. The promotion is being made purely on ad-hoc basis and the officer will not have any right for regularization, continuation or seniority in the Senior Principal Private Secretary grade.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn-II)

The 9th May 2003

No. A-32014/15/2001-Admn.II.—Consequent upon their inclusion in the Select List (Seniority Quota, of Grade 'A&B' merged) of CSSS cadre of the Department of Telecommunications for the year 2000 & 2001, the President is pleased to appoint the following Stenographer Grade 'C' borne on the CSSS cadre of this Department as Grade 'A&B' (merged) of CSSS in the same Department in the pay scale of Rs. 6500—10500/- w.e.f. the dates indicated against each and until further orders :—

1. Shri D. S. Rawat—5-5-2003.

2. Shri D. D. Khobha (SC)—30-4-2003.

2. These officers will be on trial for a period of two years.

3. Both the officers, viz. S/Shri D. S. Rawat and D. D. Khobha are posted in BSNL.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn-II)

The 4th June 2002

No. A-32014/2/2003-Admn.II.—The President is pleased to permit Shri M. Saminathan, Stenographer Grade 'C' of CSSS to continue to officiate as Private Secretary (A&B merged) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the cadre of this Department for a period of 3 months from 1-4-2003 to 30-6-2003.

2. The above officiation is purely on ad-hoc basis and will not confer on Shri Saminathan any right for absorption in the grade of Stenographer 'A&B' (merged) of CSSS or seniority in the grade.

SATISH WADHWA, Under Secy. (Admn.III)

New Delhi-110001, the 2nd July 2003

No. 1-2/2001-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri K. H. Khan, ITS, as Member (Technology), Telecom Commission w.e.f. the forenoon of 2nd July, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.

The 24th July 2003

No. PF-2114/Admn.I.—On attaining the age of superannuation Shri K. R. Ranganathan, Under Secretary, Department of Telecommunications, currently on deputation to Telecom Regulatory Authority of India, New Delhi shall stand retired from Government service w.e.f. the afternoon of 31st July, 2003.

MAN MOHAN SINGH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 28th July 2003

No. 13-21/2003-SPG.—Shri R. P. Sharma, Assistant Director (Phil.) Department of Posts will be retiring from Government service w.e.f. 31st July, 2003 (A/N) on attaining the age of superannuation.

R. S. YADAV
Asstt. Director General (SPG)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th July 2003

No. ERB-I/2003/2/56.—Shri V. N. Mathur, SAG/IRTS, is appointed to Grade Rs. 22400—24500/- as Adviser (Coaching), Railway Board with effect from the forenoon of 11-07-03.

R. R. JARUJAR, Secy.
Railway Board

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 16th July 2003

No. 4/2003, F. No. 4/6/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Daya Nidhi Joshi, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Water Resources as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 6500-200-10500/- in an officiating capacity with effect from 8-5-2003 (F/N) until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 5/2003, F. No. 4/6/2000-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Abhijit Chakraborty, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of the Ministry of Home Affairs as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the scale of Rs. 6500-200-10500/- in an officiating capacity with effect from 21-5-2003 (F/N) until further orders.

N. K. GUPTA, Under Secy.

The 30th July 2003

No. 6/2003, F. No. 22/427/99-Admn.—The President is pleased to appoint Shri I. L. Bhatia, Deputy Secretary to the Government of India, as Director in the Ministry of Water Resources, as a measure personal to him, with effect from 5-7-2003 (F/N).

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 30th July 2003

No. 22/2003, F. No. 25/1 (13)/2002-E. I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Subodh Kumar Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 30-6-2003 (F/N).

2. Shri Subodh Kumar Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 23/03, F. No. 30/2/2003.E. I.—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Sheel Rajneesh, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 23-07-2003 (A/N).

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

The 31st July 2003

No. 24/2003, F. No. 25/1/(19)/2001-E. I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2000, the President is pleased to appoint Shri Pradeep Kumar to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-A) Service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 4-7-2003 (F/N).

2. Shri Pradeep Kumar will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 17th July 2003

No. PF/682/IIS.—On attaining the age of superannuation, Shri N. N. Sharma, a Senior Administrative Grade Officer of IIS Group 'A' retired from Govt. service on the afternoon of 30th June, 2003.

2. Shri N. N. Sharma relinquished charge of the post of Regional Director, DAVP, Bangalore (shifted to New Delhi) on the same date.

ASHOK KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th July 2003

No. 3/11/2002-Admn. II.—The President is pleased to appoint the following Section Officers of CSS Cadre of Ministry of Information and Broadcasting as Desk Officers in the Main Secretariat of this Ministry with effect from the forenoon of the dates mentioned against their names :—

S. No., Name, IRLA No., Office & Date

1. Smt. Rina Guha (14430), Main Secretariat—
30-06-2003.
2. Shri V. K. Sharma (14174), Main Secretariat—
08-07-2003.

2. They, in addition to their grade pay of Section Officer, will draw a Desk Allowance of Rs. 300/- per month on their appointment as Desk Officer in terms of Department of Personnel & Training's OM No. 2/24/97-PIC dated 16-10-2000.

S. S. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 5th August 2003

No. 1/15/2000-MUC.—In continuation of this Ministry's notification of even number dated 20-06-2000, the President is pleased to extend the deputation period of Shri S. V. Menon, a Senior Grade 'A' Officer of Indian Information Service as Joint Director (Advertising) Scale : Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate of Advertising and Visual Publicity (DAVP), Ministry of Information and Broadcasting, New Delhi, for a further period of six months beyond 07-06-2003, (or) until further orders, whichever is earlier.

S. V. KRISHNAN, Under Secy.